

m/o Edu.



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 70]

नई दिल्ली, शनिवार, फरवरी 26, 1983/फाल्गुन 7, 1904

No. 70]

NEW DELHI, SATURDAY, FEBRUARY 26, 1983/PHALGUNA 7, 1904

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
(स्वास्थ्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 फरवरी 1983

सां० का० नि० 109(अ).—खाद्य अपमिश्रण नियम 1955 में
संशोधन करने के लिए नियमों का एक प्रारूप खाद्य अपमिश्रण अधिनियम
1954 (1951 का 37) की धारा 23 की उपधारा (i) द्वारा यथा
अपेक्षित भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
(स्वास्थ्य विभाग) की अधिसूचना संख्या सां०का०नि० 837 तारीख
1 सितम्बर, 1981 के अधीन भारत के राजपत्र, भाग 2, खंड 3, उपखण्ड
(i) तारीख 2-9-81 के पृष्ठ संख्या 1981—1987 पर प्रकाशित
किया गया था, जिसमें उस तारीख से जिसको उक्त राजपत्र की प्रतियां
जनता को उपलब्ध कराई गई थी, 90 दिन की समाप्ति से पूर्व उन
गर्भी व्यक्तियों से आक्षेप और मुझाव माने गए थे, जिनके उसमें प्रभावित
होन का संभावना है।

और उक्त राजपत्र 12 सितम्बर, 1981 को जनता का उपलब्ध
करा दिया गया था

और उक्त राजपत्र न नियमों के उक्त प्रारूप की जाबत जनता से
प्रदान मांगे और मुझावों पर विचार कर लिया है,

1396 GI/82

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 23 की
उपधारा (i) द्वारा प्रदान शक्तियों का प्रयोग करने हुए और केन्द्रीय
खाद्य मानक समिति से परामर्श के पश्चात् खाद्य अपमिश्रण नियम,
1955 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है,
अर्थात् —

प्रारूप नियम

1 (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम खाद्य अपमिश्रण निवारण (प्रथम
संशोधन) नियम, 1983 है।

(2) ये सिधाय नियम 2(3) के जो प्रकाशन की तारीख से छह
मास के पश्चात् प्रवृत्त होगा, राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को
प्रवृत्त होंगे।

2 खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम, 1955 (जिसे इसमें इसके
पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 42 में,

(1) उप-खण्ड (अ) में, "खाद्य सामान्य नमक की प्रतिशतता
नशा" शब्दों का जोड़ किया जाएगा।

(2) उप-खण्ड (ट) में अन्त में निम्नलिखित शब्दों को जोड़ा
जाएगा अर्थात् —

"यदि मिश्रित समाला तेल में मिला जाता है तो उस पर
निम्नलिखित लेबल होगा —

मिश्रित मसाला (तला हुआ)
यह मसाला . . . (प्रयुक्त खाद्य तेल का नाम) से तला गया है

3. उक्त नियम के परिशिष्ट ख में,

(क) मद क. 05.01,	क. 05.02	क. 05.03,
क. 05.03.01,		क. 05.04
क. 05.04.01,		क. 05.07
क. 05.08,		क. 05.09,
क. 05.10,	क. 05.11,	क. 05.12,
क. 05.13,	क. 05.14,	क. 05.15,
क. 05.12,	और क. 05.22 के अन्त में	

निम्नलिखित अंतस्थापित किया जाएगा अर्थात् —

“उसमें मिलाए गए रंजक पदार्थ नहीं होंगे”

(ख) मद क. 05.01	क. 05.03.02,	क. 05.01.02
क. 05.06.01	क. 05.07.01	क. 05.08.01
क. 05.09.01	क. 05.10.01	क. 05.11.01
क. 05.12.01	क. 05.13.01	क. 05.14.01
क. 05.15.01	क. 05.16.01	क. 05.17.01
क. 05.17.02	क. 05.17.03	क. 05.18,
और क. 05.23 के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाएगा,		
अर्थात् —		

“उसमें मिलाए गए रंजक पदार्थ नहीं होंगे”

2. मद क. 05.21 में “जब कभी सामान्य खाद्य नमक मिलाया जाए तो भारतसार उसका प्रतिशत लेबल पर घोषित किया जाएगा” शब्दों का लोप किया जाएगा,

3. मद क. 05.21 के पञ्चम, निम्नलिखित मद अंतस्थापित की जाएगी, अर्थात् —

“क. 05.21.01—मिश्रित मसाला (साबुत) से स्वच्छ सुख और स्वास्थ्यप्रद सुगन्धित घृतिशो तथा मसाले का मिश्रण अभिप्रेत है। इसमें सुखी साग भाजी और/या फल, तिलहन, महुमुन, अदरक, खगन्धम और करी के पत्ते भी हो सकते हैं। यह मिलाए गए रंजक पदार्थ से मुक्त होगा। यह कर्बुदी और कीट ग्रस्त से मुक्त होगा। बाह्य पदार्थ का अनुपात भार में पाँच प्रतिशत से अधिक नहीं होगा जिसमें से कार्बनिक पदार्थ जिसके अन्तर्गत विजातीय खाद्य बीज भी हैं, और अकार्बनिक पदार्थ का अनुपात त्रिशत तीन प्रतिशत और दो प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।”

मिश्रण में अतिष्ठ मसालों के नाम लेबल पर शर के आधार पर सम्मिश्रण के अवरोहों के अन्त में उपदर्शित किए जायेंगे।

4. मद क. 07.03 में, “फ्रक्टोस/ग्लूकोस का अनुपात 0.90 से कम नहीं होगा” शब्दों और अंकों के स्थान पर “फ्रक्टोस/ग्लूकोस का अनुपात 0.95 से कम नहीं होगा” शब्द और अंक रखे जायेंगे,

5. मद क. 19.01 में “आटा” शब्द के स्थान पर, “आटा या परिणामी आटा” शब्द रखे जायेंगे।

6. मद क. 19.07 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा अर्थात् —

“क. 19.07 बिस्कुट, जिनके अन्तर्गत बेकर बिस्कुट भी हैं जो मैदा, दन्तसनि या परिष्कृत खाद्य तेल अथवा टेबल सफ़रन या देशी मक्खन या कृत्रिम मक्खन या घी या उनके मिश्रण से बनाए जायेंगे। इसमें निम्नलिखित एक या अधिक गंधक हो सकते हैं, अर्थात् —

सामान्य खाद्य नमक, अनुधात प्रशि आक्सीकारक पायसी-कारक और स्थायीकारक, अनुधात परिरक्षक और रंग, किण्वन-कारक जैसे बेकिंग पाउडर, अमोनियम बाइकार्बोनेट, अमोनियम कार्बोनेट और मक्खन दूध पाउडर अनाज और उसके उत्पाद, पनीर, मिट्टिक अम्ल, कोचा कार्फा निकर्ष खाद्य निर्जलीकृत नायग्लियल, डैक्मट्राज, फल और फल उत्पाद, सूखे फल और दूध फल, अंडे, खाद्य वनस्पति उत्पाद, एमिलेस और अन्य एन्जाइम अनाज से मुक्तपूर्ण, मुश्चियर्धक और फिक्मचर, आटा उन्नयक, अवक ग्लूटेन, मृगफली का आटा, दूध और दूध उत्पाद, मध जैली फाइंग कारक, द्रव ग्लूकोस, सॉल्ट उत्पाद, खाद्य तिलहन, आटा और चूरा, गरम मसाले और मसाले खाद्य स्टार्च जैसे आलू स्टार्च और खाद्य आटा, चीनी और चीनी उत्पाद, इक्टें शुगर, गुड प्रोटीन सॉल्ट गीर और अन्य पीपक सोडियम बाईसल्फेट सोडियम मेटा-बाईसल्फेट और अन्य डाई सोडियम, विटामिन, हैरिगन और फेरस सॉल्ट, पोटेनियम आयोडाइड; मैलिक और लैक्टिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल, सिरका और एसेटिक अम्ल गमीर।

बिस्कुट निम्नलिखित मानकों के अनुरूप होंगे अर्थात् —

(क) (शुष्क आधार पर) तनुकृत हाइड्रोक्लोरिक के अम्ल से अखिलेय भस्म 1.0 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी

(ख) निकार्फा गैस वसा की अम्लता (ओलिक अम्ल के रूप में) 1.5 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।”

7. मद क. 25.02 के पञ्चम, निम्नलिखित में जोड़ा जाएगा अर्थात् —

क. 25.02.01 चूड़न या बबनगम, चूड़न आधार या बबनगम आधार, प्राकृतिक या सिन्थेटिक, नान-टॉक्सिक इंधु शर्करा और द्रव ग्लूकोस (कान्सिरेप) से तैयार किया जाएगा। गन् आधार के निम्नलिखित स्रोतों का प्रयोग किया जाएगा :—

- (1) धबूल, कीकर (गम अरैबिक)
- (2) खैर
- (3) झींगा (जैल)
- (4) चूड़ा
- (5) चूक (मपीटा)
- (6) प्राकृतिक रबड़ सेटेन
- (7) सिन्थेटिक रबड़ सेटेन
- (8) काष्ठज गाल का ग्लिसरोल एस्टर
- (9) गोंड गाल का ग्लिसरोल एस्टर
- (10) सिन्थेटिक गाल
- (11) आंशिक रूप से हाइड्रोजनकृत गोंड का काष्ठज गाल का ग्लिसरोल एस्टर
- (12) प्राकृतिक गाल
- (13) पॉलीविनाइल एसीटेट
- (14) अगर (खाद्य श्रेणी)

इसमें निम्नलिखित मसदों में से कोई भी गोपनीय हो
सकता है

- (क) निम्नलिखित
- (ख) मानक
- (ग) दुग्ध पाउडर
- (घ) चाकलेट
- (ङ) काफ
- (च) जिलेटिन खाद्य श्रेणी
- (छ) अनुज्ञापन सुरक्षित
- (ज) अनुज्ञापन रजक
- (झ) अनुज्ञापन प्रति आकर्षक
- (ञ) अनुज्ञापन परीक्षक
- (ट) अनुज्ञापन वायुनकारक
- (ठ) मारविटल
- (ड) स्नेह जैसे कि स्टार्च टेलर, स्टार्चक अम्ल, आर्द्रमिश्रण शर्करा, पैराफिन मोम या वन पैराफिन, खाद्य श्रेणी, या अन्य खाद्य श्रेणी ग्रन्थि तेल
- (ढ) पेय जल
- (ण) आम्लीकारक खाद्य श्रेणी
- (त) विटामिन खनिज प्राटिन जैसे पौधक
- (थ) टिटानियम डाइऑक्साइड, खाद्य श्रेणी (भार के अनुसार अधिकतम प्रतिशत)
- (द) कैल्शियम एम्बेड
- (ध) मैग्नेशियम एम्बेड
- (न) फास्फेटिड स्टार्च

यह गदगी गवे अपांमयकी और हानिकारक सर्वा से रहित होगा।
यह निम्नलिखित मानकों के भी अनुषंग होगा, अर्थात् --

मसदक	वहम	ववव गम
(1) गम	भार में 1:5 प्रति- गव से कम नहीं होगा	भार में 14.0 प्रतिगव से कम नहीं होगा।
(2) आर्द्रता	भार में 3.5 प्रति- गव से अधिक नहीं होगी।	भार में 3.5 प्रतिगव से अधिक नहीं होगी।
(3) सल्फेटमसम	भार में 9.5 प्रतिगव से अधिक नहीं होगी।	भार में 11.5 प्रतिगव से अधिक नहीं होगी।
(4) अम्ल अविलेय भस्म	भार में 2.0 प्रतिगव से अधिक नहीं होगी।	भार में 3.5 प्रतिगव से अधिक नहीं होगी।
(5) उपचायक चीनी हसे डेकमट्रीज माता गया है।	भार में 4.5 प्रतिगव से अधिक नहीं होगी	भार में 5.5 प्रतिगव से कम नहीं होगी।
(6) गुकाव	भार में 70.00 प्रतिगव से अधिक नहीं होगी।	भार में 60.0 प्रतिगव से अधिक नहीं होगी

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(Department of Health)

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th February, 1983

G.S.R. 109(E).—Whereas certain draft rules further to amend the Prevention of Food Adulteration Rules, 1955, were published as required by Sub-section (1) of section 23 of the Prevention of Food Adulteration Act, 1954 (37 of 1954), with the notification of Government of India in the Ministry of Health and Family Welfare (Department of Health) No. G.S.R. 837, dated 1st September 1981 at pages 1984—1987, in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (1) inviting objections and suggestions from all the persons likely to be affected thereby before the expiry of 90 days from the date on which copies of the said Gazette were made available to the public.

And whereas the copies of the said Gazette were made available to the public on the 12th September, 1981:

And whereas the objections and suggestions received from the public on the said draft rules have been considered by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 23 of the said Act, the Central Government after consultation with Central Committee for Food Standards hereby makes the following rules, further to amend the Prevention of Food Adulteration Rules, 1955, namely:—

RULES

1. (1) These rules may be called the Prevention of Food Adulteration (1st Amendment) Rules, 1983.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette, except rule 2(3) which shall come into force after six months from the date of its publication.

2 In the Prevention of Food Adulteration Rules, 1955 (hereinafter referred to as the said rules), in rule 42.

(i) In clause (I), the words “percentage of edible common salt and” shall be omitted.

(ii) in clause (L) the following words shall be inserted at the end, namely:—

“If mixed masala is fried in Oil, it shall bear the following label:—

MIXED MASALA (FRIED)

THIS MASALA HAS BEEN
FRIED IN

(Name of the edible oil used)

3. In appendix “B” to the said rules,

(1) (a) in items A. 05.01, A.05.02, A. 05.03, A. 05.03.01, A. 05.04, A.05.04.01, A.05.07, A.05.08, A. 05.09, A. 05.10, A. 05.11, A. 05.12, A. 05.13, A.05.14, A. 05.15, A. 05.17, and A. 05.22, after the words and figures “insect damaged matter shall not exceed 5 per cent by weight”, the words “It shall be free from added colouring matter.”, shall be inserted;

(b) in items A. 05.01.01, A. 05.03.02, A. 05.04.02, A. 05.06.01, A. 05.07.01, A.05.08.01, A. 05.09.01, A. 05.10.01, A. 05.11.01, A. 05.12.01, A. 05.13.01, A. 05.14.01, A. 05.15.01, A. 05.16, A. 05.16.01, A. 05.17.01, A. 05.17.02, A.05.17.03, A. 05.18, and A. 05.23, the words “It shall be free from added colouring matter.”, shall be added at the end;

- (2) in item A. 05.21, the "whenever edible common salt is added, its percentage by weight shall be declared on the label. also" shall be omitted;

- (3) after item A. 05.21, the following items shall be inserted, namely :

"A. 05.21.01—Mixed Masala (whole) means a mixture of clean, dried and sound aromatic herbs and spices. It may also contain dried vegetables and/or fruits, oilseeds, garlic, ginger, poppy seeds and curry leaves. It shall be free from added colouring matter. It shall be free from mould growth and insect infestation. The proportion of extraneous matter shall not exceed five per cent by weight, out of which the proportion of organic matter including foreign edible seeds, and inorganic matter, shall not exceed three per cent and two per cent, respectively.

The names of the spices contained in the mixture shall be indicated on the Label in descending order of composition by it".

- (4) in item A. 07.03, for the words and figures "Fructose/Glucose ratio shall not be less than 0.90", the words and figures "Fructose/Glucose ratio shall not be less than 0.95, shall be substituted;

- (5) in item A. 18.01, for the word "Atta" the words "Atta or resultant atta", shall be substituted;

- (6) for item A. 18.07 the following item shall be substituted, namely :-

"A.18.07—Biscuits including water biscuits shall be made from maida, vanaspati or refined edible oil or table butter or deshi butter or margarine or ghee or their mixture. It may contain any one or more of the following ingredients, namely :—

Edible common salt; permitted anti-oxidants; emulsifying and stabilising agents; permitted preservatives and colours; leavening agents such as baking powder; ammonium bicarbonate; ammonium carbonate; butter milk powder; cereals and their products; cheese; citric acid; cocoa; coffee extract; edible desiccated coconut; dextrose; fruits and fruit products; dry fruit and nuts; egg; edible vegetable products; amylases and other enzymes, permitted flavouring agents; flavour improvers and fixers; flour improvers; ginger; gluten; groundnut flour milk and milk products; honey; jellyfying agents; liquid glucose; malt products; edible oilseeds; flour and meals; spices and condiments; edible starches such as potato starch and edible flour; sugar and sugar products; invert sugar; jaggery, protein concentrates and other nutrients; sodium bisulphites, sodium meta-bisulphite and other dough conditioners; vitamins, calcium and ferrous salts; potassium iodide, malic and lactic acids; tartaric acid; vinegar and acetic acid; yeast.

Biscuits shall conform to the following standards, namely :—

- (a) Ash insoluble in dilute hydrochloric acid (on dry basis) shall not be more than 0.1 per cent.
- (b) Acidity of extracted fat (as oleic acid) shall not exceed 1.5 per cent";

- (7) after item A.25.02, the following item shall be inserted, namely :—

"A. 25.02.01—Chewing gum and bubble gum shall be prepared from chewing gum base or bubble gum

base, natural or synthetic, non-toxic; cane sugar and liquid glucose (corn syrup).

The following sources of gum base may be used :—

- (1) Babul, Kikar (Gum Arabic)
- (2) KHAIR
- (3) Jhingan (Jael)
- (4) Ghatti
- (5) Chiku (Sapota)
- (6) Natural rubber latex
- (7) Synthetic rubber latex
- (8) Glycerol ester of wood rosin
- (9) Glycerol ester of gum rosin
- (10) Synthetic resin
- (11) Glycerol ester of partially hydrogenated gum or wood rosin
- (12) Natural resin
- (13) Polyvinyl acetate
- (14) Agar (food grade)

It may also contain any of the following ingredients, namely :—

- (a) Glycerine;
- (b) Malt;
- (c) Milk powder;
- (d) Chocolate;
- (e) Coffee;
- (f) Gelatin, food grade;
- (g) Permitted Flavours ;
- (h) Permitted Colours ;
- (i) Permitted anti-oxidants ;
- (j) Permitted Preservatives ;
- (k) Permitted Emulsifiers;
- (l) Sorbitol ;
- (m) Lubricants, such as starch, talc, stearic acid, icing sugar, paraffin wax or liquid paraffins, food grade, or other food grade mineral oil;
- (n) Water, potable;
- (o) Acidulants, food-grade ;
- (p) Nutrients like vitamins, minerals, proteins;
- (q) Titanium dioxide, food-grade (Maximum 1 per cent by weight),
- (r) Calcium carbonate ;
- (s) Magnesium carbonate ;
- (t) Phosphated starch ;

It shall be free from dirt, filth, adulterants and harmful ingredients. It shall also conform to the following standards, namely :—

Ingredients	Chewing gum	Bubble gum
(i) Gum	Not less than 12.5 per cent by weight.	Not less than 14.0 per cent by weight.
(ii) Moisture	Not more than 3.5 per cent by weight.	Not more than 3.5 per cent by weight.
(iii) Sulphated Ash	Not more than 9.5 per cent by weight.	Not more than 11.5 per cent by weight.
(iv) Acid insoluble ash	Not more than 2.0 per cent by weight.	Not more than 3.5 per cent by weight.
(v) Reducing sugars (calculated as dextrose)	Not less than 4.5 per cent by weight.	Not less than 5.5 per cent by weight.
(vi) Sucrose	Not more than 70.0 per cent by weight.	Not more than 60.0 per cent by weight.

[No. P. 15014/1/79-PH(F&N)PFA]

S.K. SUDHAKAR, Jr. Secy.